

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन स्टार्टर कंपनी प्लस और समर कंपनी प्रोग्रामों के साथ हर उम्र के उद्यमियों के लिए मदद प्रदान करेगी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (11 फरवरी, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अब, उद्यमी ट्रेनिंग और फंडिंग के दो अवसरों: स्टार्टर कंपनी प्लस प्रोग्राम (Starter Company Plus Program) और समर कंपनी प्रोग्राम (Summer Company Program) के लिए आवेदन स्वीकार कर रही है।

ब्रैम्पटन के छोटे कारोबारों के लिए तेज़ बदलाव होने के समय, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, उद्यमियों की मदद के लिए लगातार, साधन प्रदान कर रही है। ये दो प्रोग्राम, ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर (बी.ई.सी.) (Brampton Entrepreneur Centre) (BEC) के द्वारा पेश किए जा रहे हैं, ताकि उद्यमियों को अपने कारोबार शुरू करने या विकसित करने में मदद की जा सके। उन्हें, ओनटैरियो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, जॉब क्रिएशन एंड ट्रेड (Ontario Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade) के द्वारा फंडिंग की जा रही है।

### स्टार्टर कंपनी प्लस प्रोग्राम

ओनटैरियो प्रांत के साथ साझेदारी में, बी.ई.सी. (BEC), नए या मौजूदा बिजनेस योजना वाले व्यक्तियों की मदद करने के महत्व को समझता है। स्टार्टर कंपनी प्लस प्रोग्राम, योग्य भागीदारों को मुफ्त ट्रेनिंग, मुफ्त सलाह, 5,000 डॉलर तक की ग्रांट के अवसर प्रदान करता है, ताकि वे छोटे कारोबार की शुरुआत, विस्तार कर पाएं या खरीद पाएं। प्रोग्राम का उद्देश्य, लोकल आर्थिक विकास की जरूरतों का पता लगाना है, और जहां उपयुक्त हो, यह खास इंडस्ट्रीज और सेक्टरों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

ब्रैम्पटन में, स्टार्टर कंपनी प्लस प्रोग्राम के लिए आवेदन करने हेतु, आपके लिए आवश्यक है कि आप ज़रूरी जानकारी सेशन में हिस्सा लेने और शामिल होने के लिए अपनी योग्यता की पुष्टि करें। जानकारी सेशन में शामिल होने से, प्रोग्राम में स्वीकृति या प्रोग्राम ग्रांट मिलने की गारंटी नहीं है।

इच्छुक पक्ष, निम्नलिखित तारीखों को, ज़रूरी जानकारी सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं:

- 18 फरवरी, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
- 18 फरवरी, शाम 6 बजे से 7 बजे तक
- 23 फरवरी, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
- 23 फरवरी, शाम 6 बजे से 7 बजे तक

प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने और योग्यता निर्धारित करने के लिए, [www.brampton.ca/bec](http://www.brampton.ca/bec) पर जाएं।

### समर कंपनी प्रोग्राम

ओनटैरियो सरकार के साथ साझेदारी में, बी.ई.सी., 15 से 29 वर्ष की उम्र वाले ओनटैरियो को विद्यार्थियों की, कारोबार शुरू करने और चलाने में मदद करता है। पूरी गर्मी के दौरान, विद्यार्थी, सोशल मीडिया, मार्केटिंग और सेल्स में माहिर होने, कारोबार संबंधी जोखिम को संभालने और नेटवर्किंग जैसे, विषयों वाली ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं।

आवेदनों के लिए अंतिम तिथि, 19 अप्रैल, 2021 है। उभरते युवा उद्यमियों को सलाह दी जाती है कि वे, आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानने के लिए बी.ई.सी. से जुड़ें। प्रोग्राम, मई से अगस्त 2021 तक, आभासी तौर पर (वर्चुअली) प्रदान किया जाएगा।

इच्छुक पक्ष, निम्नलिखित तारीख को, जरूरी जानकारी सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं:

- 25 मार्च, दोपहर बाद 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक

अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/bec](http://www.brampton.ca/bec) पर जाएं।

### ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर के बारे में

ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्लानिंग, बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवेलपमेंट (Planning, Building and Economic Development) विभाग का हिस्सा है। बी.ई.सी., सभी सेक्टरों में बिल्कुल छोटे और छोटे कारोबारों की पूरी तैयारी, शुरुआत और लंबी-अवधि की स्थिरता को आगे बढ़ाकर, लोकल अर्थव्यवस्था की स्थिरता और वृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

### ब्रैम्पटन की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी के बारे में

मई 2020 में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, लोकल अर्थव्यवस्था को पुनः बहाल करने की ओर आगे बढ़ने हेतु, सिटी के लिए फ्रेमवर्क के तौर पर ब्रैम्पटन की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी (Economic Recovery Strategy) की हिमायत की थी। इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी, चार आवश्यक चीजों: *नवीनता, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रीनियरशिप*, जिसमें उद्यमियों और छोटे कारोबारियों की बेहतर ढंग से मदद करने के लिए, ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर की पेशकशों का विस्तार शामिल है; *निवेश, कला, संस्कृति और टूरिज्म*; और *इंफ्रास्ट्रक्चर* में संगठित की गई है। अधिक जानने के लिए, [यहां क्लिक करें \(click here\)](#)।

### हवाले

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है और लोकल कारोबार, हमारे शानदार समुदाय की भलाई के लिए जरूरी हैं। हमारे निवासियों के लिए बेहद मुश्किलों भरे समय में, हम मौजूदा और उभरते लोकल उद्यमियों के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं इच्छुक ब्रैम्पटन निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे, हमारे ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर द्वारा पेश किए जा रहे, स्टार्टर कंपनी प्लस और समर कंपनी प्रोग्राम का लाभ उठाएं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर, हमारे शहर में सभी सेक्टरों में बिल्कुल छोटे और छोटे कारोबारों के लिए, बहुमूल्य सेवाएं और प्रोग्राम पेश करता है। जो व्यक्ति ब्रैम्पटन में कारोबार की शुरुआत करने, आगे बढ़ाने या खरीदने के इच्छुक हैं, उन्हें स्टार्टर कंपनी प्लस प्रोग्राम के लिए जानकारी सेशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उभरते विद्यार्थी उद्यमियों को, समर कंपनी प्रोग्राम के लिए

आवेदन करने की सलाह दी जाती है। ये दोनों प्रोग्राम, बी.ई.सी. द्वारा पेश किए जा रहे हैं। आप हमारे शहर का भविष्य हैं और हम मदद के लिए मौजूद हैं।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“ब्रैम्पटन के लोकल कारोबार और उद्यमी, हमारे समुदाय के संपूर्ण भलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। सिटी की कोविड-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स, महामारी के शुरू होने पर स्थापित की गई थी और उसके बाद इसने, इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी स्थापित की, जो हमारे उद्यमियों और कारोबारों की, यहां ब्रैम्पटन में कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए और साधन तथा मदद प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी का स्टाफ, टर्म ऑफ काउंसिल की प्रायोरिटी कि *ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है*, को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे हासिल करने के हमारे कई तरीकों में से एक, हमारे ब्रैम्पटन एंटरप्रीनियर सेंटर द्वारा प्रोग्राम पेश करना है। युवा और उद्यमी, हमारी लोकल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें आगामी स्टार्टर कंपनी प्लस और समर कंपनी प्रोग्रामों के द्वारा उनकी मदद करने पर गर्व है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

गुरविंदर सिंह (Gurvinder Singh)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-2028 | [Gurvinder.A.Singh@brampton.ca](mailto:Gurvinder.A.Singh@brampton.ca)

